

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-07022024-251925
SG-DL-E-07022024-251925असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]	दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2024/माघ 18, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 420
No. 50]	DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2024/MAGHA 18, 1945	[N. C. T. D. No. 420

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 7 फरवरी, 2024

सं. 08/2023-राज्य कर (दर)

सं.फा. 03(23)/वित्त(व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/121.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतदद्वारा, इस सरकार, की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), जिसे सं.फा.03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/379, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

प्रधान अधिसूचना में, अनुबंध III में, शब्दों, अंकों और अक्षरों “मैंने/हमने दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष..... के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।” के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों “मैंने/हमने दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और वित्तीय वर्षसे फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है और रिवर्स चार्ज मकेनिज्म में रिवर्ट नहीं किया है।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय-I)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017 राज्य कर (दर), को सं.फा.03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/379, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2023-राज्य कर (दर), जिसे सं.फा.03(43)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/440, दिनांक 25 मई, 2023 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th February, 2024

No. 08/2023-State Tax (Rate)

No. F. 03(23)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/121.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the in the Notification of Government, No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated 30.06.2017 the, namely:—

In the notification, in Annexure III, for the words and figures “during the Financial Year _____ under forward charge”, the words and figures “from the Financial Year under forward charge and have not reverted to reverse charge mechanism” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 27th July, 2023.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the

National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)

Note : The principal notification no. 13/2017 – State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-IV, Vide F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30.06.2017 and last amended vide notification no. 02/2023 – State Tax (Rate), dated the 23.05.2023 published in the official gazette vide No. F.3 (43)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/440.